



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 4—फरवरी 10, 2006 (माघ 15, 1927)

No. 5] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 4—FEBRUARY 10, 2006 (MAGHA 15, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 26 दिसम्बर 2005

सं. यू. 16/53/99/पी.टी.एम.आर. (मुंबई)चि.-2--कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम-105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश सं. 1024(जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूं।

डॉक्टर का नाम

अवधि

केन्द्र का नाम

डॉ. एस. आर. करनालकर

01.10.2005 से 30.09.2006

वालिस गांव (महाराष्ट्र)

डॉ. कमलेश कालरा
चिकित्सा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 13 जनवरी 2006

सं. यू. 16/53/2002/राजस्थान/चि.-2--कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम-105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश सं. 1024(जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियां मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा हनुमान गढ़ के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (सी.एम.ओ.) को राजस्थान अंतरकालिक चिकित्सा निर्देशी के मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर कार्यग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिए राजकीय चिकित्सा आयुक्त (जयपुर) द्वारा निर्धारित हनुमान गढ़ क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूं।

डॉ. कमलेश कालरा
चिकित्सा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी 2006

संख्या: एन-15/13/12/09/2005-यो.एवं वि.

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 जनवरी, 2006 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा राजस्थान कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ राजस्थान राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :-

जिला- जयपुर तहसील- सांगानेर के राजस्व ग्राम बलरामपुरा उर्फ खेजड़ों का बास, झालानाचोड़, देवरी, सांगानेर सुखालपुरा और मान्यावास उर्फ नन्दकिशोरपुरा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र जिसमें राजस्थान आवासन मण्डल की मानसरोवर कॉलोनी शामिल हैं ।

एम. सुन्दररामन
निदेशक (यो. एवं वि.)

संख्या: एन-15/13/12/06/2005-यो.एवं वि.

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 जनवरी, 2006 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा राजस्थान कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ राजस्थान राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :-

जिला- अलवर में तहसील- तिजारा के राजस्व ग्राम चौपानकी, गन्धौला, जोडिया, भूडली, बन्दापुर, अमलाकी, कारेण्डा, कारेण्डी, खेड़ी, गाउपुर, फलसा, बहादरी, शाहडोद और हुसैपुर के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र ।

एम. सुन्दररामन
निदेशक (यो. एवं वि.)

संख्या: एन-15/13/12/08/2005-यो.एवं वि.

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने **01 जनवरी, 2006** ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा राजस्थान कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ राजस्थान राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात :-

जिला- अलवर तहसील-बहरोड़ के निम्नलिखित राजस्व ग्रामों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र:-

जैनपुर बास (सोतानाला), गूँती श्यामपुरा, शिमला, सरविन्दपुरा, गुजरवास, तलवाड़, मोमनपुर, जलालपुर-नांगलिया, शेरपुर, गोकुलपुर, कांकर छाजा, कृष्ण नगर, गाधोज, तर्सींग, खोहरी, नांगलिया, नासरपुर, सागली, मावड़ी, रामसिंहपुरा, नंगलीसाई, सोरवा, बूढवाल, खाटन खेड़ा, मिल्कपुर, भिटेड़ा, बीघाना, चांदीचाना, दुधेड़ा, हमजापुर, नंगलारुद्ध, बांटखानी, कांकरदोपा

कोलीला सांगा, कोलीला जोगा, कोलीला राबड़, फतेहपुर, बिचपुरी, पीपली, माजरी कलां, माजरी खुर्द, विजयसिंहपुरा, रोडवाल, मुकन्द सिंह पुरा, भीमसिंहपुरा, सलारपुर, माजरा, कान्हावास, बसई भोपावाली, दिलोठ, जौनायचा कला, श्रीयानी, कालियो होड़ा, दूढारिया ।

एम. सुन्दररामन
निदेशक (यो. एवं वि.)

संख्या: एन-15/13/12/01/2005-यो. एवं वि.

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 जनवरी, 2006 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा राजस्थान कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ राजस्थान राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :-

जिला- भीलवाड़ा में तहसील- सहाड़ा के राजस्व ग्राम गणेशपुरा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र ।

एम. सुन्दररामन
निदेशक (यो. एवं वि.)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

नई दिल्ली-110066, दिनांक 17 जनवरी 2006

सं. सम्मेलन-5(19)/2003/छत्तीसगढ़/21838--

संख्या कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 5 के साथ पठित पैरा 4 के उप-पैरा(1) के अनुसरण में अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (क.भ.नि.), योजना के पैरा 4(1) के परन्तुक के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, क्षेत्रीय समिति (क.भ.नि.) में एतद्वारा नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों के निम्नलिखित अतिरिक्त सदस्यों, सर्वश्री मानसिंह, सुरेन्द्र कुमार जैन, श्याम सुन्दर वर्मा, एस.के. जैन, ए.के. चतुर्वेदी तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त सदस्य श्री योगेश चन्द्र शर्मा के नामांकन को रद्द करते हैं तथा दिनांक 8 नवम्बर, 2003 को भारत के राजपत्र के खण्ड 4, भाग-III में प्रकाशित (प्रकाशन संख्या 45) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, मुख्यालय, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या सम्मेलन-5(19)2003/छत्तीसगढ़/13933 दिनांक 22.10.2003 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं ।

उक्त अधिसूचना में, योजना के पैरा 4(1) के परन्तुक के अंतर्गत अतिरिक्त सदस्यों के रूप में नियोक्ता तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की श्रेणी में, क्रम संख्या 8 से 13 पर निम्नलिखित सदस्यों के नाम हटा दिये जाएं :-

8. श्री मानसिंह
6, हनुमान नगर, दुर्ग, छत्तीसगढ़
9. श्री योगेश चन्द्र शर्मा
"एल सी गुरुद्वारा निवास",
राजेन्द्र नगर, बिलासपुर-495001
10. श्री सुरेन्द्र कुमार जैन,
बी-4, अनुपम नगर, टी.वी.टॉवर के निकट,
रायपुर, छत्तीसगढ़
11. श्री श्यामसुन्दर वर्मा,
महाप्रबंधक,
आर्यन कोल बेनीफिसिएशन प्रा0लि0,
दीपिका, कोरबा, छत्तीसगढ़

12. श्री एस.के. जैन,
नवभारत एक्सप्लोसिव लि०,
बी.आई.पी. रोड, रायपुर,
छत्तीसगढ़
13. श्री ए.के. चतुर्वेदी
अध्यक्ष,
कार्पोरेट प्रकाश इंडस्ट्रीज,
चम्पा, जिला-जंजगीर,
छत्तीसगढ़

आ. विश्वनाथन
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 13 जनवरी 2006

सं० के.भ.नि./111-47/ईडीआई-बीएण्डसी/2006

केन्द्रीय भण्डारण निगम नियमावली, 1963 के नियम 13 के अनुसरण में हुए रिक्त स्थान को भरने हेतु वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन अधिनियम, 1962 की धारा 7 की उप धारा-1 के खण्ड (एफ) में विनिर्दिष्ट वर्ग के अंशधारियों में से 10.1.2006 से 9.1.2008 तक दो वर्ष की अवधि के लिए निर्विरोध चुने गए निदेशक का नाम तथा पता निम्न प्रकार से अधिसूचित किया जाता है :

अंशधारियों का वर्ग

बीमा कम्पनियां, निवेश न्यास तथा
अन्य वित्तीय संस्थाएं, कृषि उत्पाद
अथवा अधिसूचित वस्तुओं का कारोबार
करने वाली मान्यता प्राप्त संस्थाएं तथा
कम्पनियां

निदेशक का नाम तथा पता

श्री के.वी.प्रदीप कुमार,
कोचीन ऑयल मर्चेंट्स एसोसिएशन,
पंजीकृत कार्यालय, 6/119, जू टाउन,
ऑयल एक्सचेंज भवन,
कोची-682002

निवासी : 4/265, कृष्ण विहार, शांति लेन
थोट्टाककट्टुकारा,
अलवेय-683108, केरल

एस. सी. बतरा
सचिव
केन्द्रीय भण्डारण निगम

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION**New Delhi, the 26th December 2005**

No.U-16/53/99/PTMR/Mumbai/Med. II: - In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorize the following doctor to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas to be allocated by Sr. State Medical Commissioner, Mumbai for the purpose of medical examination of the insured person and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

<u>NAME</u>	<u>Period</u>	<u>Name of Centre</u>
1. Dr. S.R. Karnalkar	1.10.2005 to 30.9.2006	Chalisgaon (Maharashtra)

DR. KAMLESH KALRA
MEDICAL COMMISSIONER

New Delhi, the 13th January 2006

No.U-16/53/2002/Med.II(Rajasthan):- In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorize Chief Medical Officer (C.M.O), Hanumangarh Centre (Rajasthan) to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms for the period of one year from date of joining for Hanumangarh centre and areas to be allocated by State Medical Commissioner, Rajasthan for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

DR. KAMLESH KALRA
MEDICAL COMMISSIONER.

New Delhi, the 16th January 2006

No. N-15/13/12/9/2005-P&D : in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st January, 2006 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Rajasthan Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Rajasthan namely

"The areas comprising the revenue villages Balrampura alias Khejron Ka Bass, Jhalana Chod, Devari, Sanganer, Sukhalpura and Manyawas alias Nandkishorpura of Tehsil Sanaganer in Distt. Jaipur which includes Mansarover Colony of Rajasthan Housing Board."

M. SUNDARARAMAN
Director (P&D)

No. N-15/13/12/06/2005-P&D : in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st January, 2006 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Rajasthan Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Rajasthan namely

The areas comprising the revenue villages Chopanki, Gandhola, Jodiya, Bhudali, Bandapur, Amlaki, Karenda, Karendi, Kheri, Gaudpur, Falsha, Bahadari, Shahadod and Husepur of Tehsil Tijara in District Alwar.

M. SUNDARARAMAN
Director (P&D)

No. N-15/13/12/08/2005-P&D : in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st January, 2006 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Rajasthan Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Rajasthan namely

The areas comprising the revenue villages of Tehsil Behror in District Alwar: -

JAINPUR BASS (SOTANALA), GUNTY, SHYAMPURA, SHIMLA, SARVINDPURA, GUJARWAS, TALWAD, MOMANPUR, JALALPUR-NANGLIA, SHEPUR, GOKALPUR, KANKAR-CHHAZA, KRISHAN-NAGAR, GADOJ, TASINGH KHOHARI, NANGLIA, NASARPUR SAGLI, MAWADI, RAMSINGHPURA, NANGLI SAI, SORWA, BHUDWAL, KHATAN KHEDA, MILAKPUR, BHITEDA, BIGHANA, CHANDI CHANA, DUGHERA, HAMZAPUR, NAGALARUDH, BAT KHANI, KANAKARDOPA,

KOLILA SAANGA, KOLILA JOGA, KOLILA RABAD, FATEHPUR, BICHPURI, PIPLI, MAZRIKALA, MAJARIKHURDH, VIJAY SINGH PURA, RODWAL, MUKUANDSINGHPURA, BHIMSINGHPURA, SALARPUR, MAJRA, KANHA WAS, BASAI BHOPAWALI, DHILOTH, JONAYACHA KALA, SHREEYANI, DUDHARIA, KALLIA HODA.

M. SUNDARARAMAN
Director (P&D)

No. N-15/13/12/01/2005-P&D : in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st January, 2006 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Rajasthan Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Rajasthan namely

"The areas comprising the revenue village Ganeshpura of Tehsil Sahara in District Bhilwara."

M. SUNDARARAMAN
Director (P&D)

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

New Delhi, the 17th January 2006

No. Conf. 5(19)2003/Chhattisgarh/21838.—

No. _____ In pursuance of Sub-paragraph (1) of paragraph 4 read with paragraph 5 of the Employee' Provident Fund Scheme 1952, the Chairman, Central Board of Trustees (EPF) hereby cancels the nomination of the following persons namely S/ Shri Man Singh, Surendra Kumar Jain, Shyam Sunder Verma, S. K. Jain, A.K. Chaturevedi, additional members of employers' representative and Shri Yogesh Chandra Sharma, additional member of employees' representative in the Regional Committee (EPF) for the state of Chhattisgarh under proviso to para 4 (1) of the scheme and makes the following amendments in the Notification of the E.P.F. Organisation, Head Office, New Delhi vide No. Conf. 5 (19) 2003/Chhattisgarh/13933 dated 22.10.2003 published (Issue Number 45) in part 3 Section 4 of the Gazette of India on 8th Nov. 2003.

In the above said notification, under the category of Employers' and Employees' Representatives as additional Members under proviso to para 4 (1) of the scheme, the following shall be deleted at serial No. 8 to 13, namely:-

- 8) Shri Man Singh,
6, Hanuman Nagar, Durg, Chhattisgarh.
- 9) Shri Yogesh Chandra Sharma,
"L.C. Gurudwara Niwas",
Rajindra Nagar, Bilaspur – 495 001.
- 10) Shri Surendra Kumar Jain,
B – 4, Anupam Nagar, Near T.V. Tower,
Raipur, Chhattisgarh.

- 11) Shri Shyam Sunder Verma,
General Manager,
Aryan Coal Beneficiations Pvt. Ltd.,
Dipika, Korba, Chhattisgarh.
- 12) Shri S.K. Jain,
Nav Bharat Explosives Limited.,
VIP Road, Raipur, Chhattisgarh.
- 13) Shri A.K. Chaturvedi,
President,
Corporate Parkash Industries,
Champa, District – Janjgir, Chhattisgarh.

A. VISWANATHAN
Central Provident Fund Commissioner

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)

New Delhi-110016, the 13th January 2006

No. CWC/III-47/EDI-B&C/2006

In pursuance of Rule 13 of the Central Warehousing Corporation Rules, 1963, the name and address of the Director elected un-opposed for a period of two years w.e.f. 10.1.2006 to 09.1.2008 from the class of shareholders specified in Clause (f) of sub-section 1 of the Section 7 of the Warehousing Corporations Act, 1962 to fill the vacancy arisen, is notified as under:-

Class of Shareholders

Insurance Companies,
Investment Trusts and
Other Financial
Institutions, recognized
associations and Companies
dealing in agricultural
produce or notified
commodities.

Name & Address of the Director

Shri K. V. Pradeepkumar,
Cochin Oil Merchants' Association,
Registered Office, 6/199, Jew Town
Oil Exchange Building,
Kochi-682002.
Resident of 4/265, Krishna Vihar,
Santhi Lane, Thottakkattukara,
Alwaye-683108, Kerala.

S. C. BATRA
Secy.

Central Warehousing Corporation